



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 4 राँची, बुधवार 10 माघ, 1940 (श०)
30 जनवरी, 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 62- 85

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2018

संख्या-4/नि० स०-12-217/2014-2966 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री कालीदास मुण्डा (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला- राँची) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	KALIDAS MUNDA- (JHK/JAS/266)	DC OFFICE DHANBAD	<u>KALIASOL</u> <u>,DHANBAD</u> Block Development Officer	19/08/2013	19/08/2015

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव

जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1139

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2018

संख्या-4/नि० स०-12-42/2017-2967 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री सुमन कुमार सौरभ (पंचम बैच, गृह जिला- गुमला) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SUMAN KUMAR SAURAV- (208237)	DC OFFICE GODDA	<u>SUNDARPAHARI BLOCK ,GODDA</u> Block Development Officer	22/06/2016	03/09/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव

जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1139

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना
26 दिसम्बर, 2018

संख्या- 4/नि.सं.-12-296/2014 का. 9415-- श्री देवराज गुप्ता, झा.प्र.से. (तृतीय बैच), अंचल अधिकारी, बोआरीजोर, गोडडा को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

- | | |
|--|---|
| (i) <u>दि० 21.03.2016 से 27.03.2016 तक</u> | } उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा
संहिता के नियम
227, 230 एवं 248 के तहत । |
| (ii) <u>दि० 31.05.2016</u> | |
| (iii) <u>दि० 13.06.2016</u> | |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2018

संख्या-4/नि० स०-12-192/2014-2943 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री मनोज कुमार गुप्ता (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला- हजारीबाग) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	MANOJ KUMAR GUPTA- (JHK/JAS/260)	DC OFFICE RAMGARH	<u>BLOCK OFFICE</u> <u>MANDU ,RAMGARH</u> Block Development Officer	19/08/2013	05/02/2016

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव

जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1139

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2018

संख्या-4/नि० स०-12-14/2014-2944 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री श्रीमान मराण्डी (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला- दुमका) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SRIMAN MARANDI- (JHK/JAS/289)	DC OFFICE SAHEBGANJ	<u>MANDRO BLOCK</u> <u>,SAHEBGANJ</u> Block Development Officer	20/08/2013	20/08/2015

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव

जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1139

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2018

संख्या-1/नि.स्था. - 1004/12 -5021-- राय श्री प्रफुल्ल कुमार, अवर निबंधक, खूँटी को दिनांक 01 मई, 2015 से 12 जुलाई, 2015 तक (73) दिन एवं दिनांक 26 जुलाई, 2017 से 09 अगस्त, 2018 (15 दिन) कुल 88 (अठ्ठासी) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 248 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

ह०/-

राम कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

21 दिसम्बर, 2018

संचिका संख्या-5/संभू. बोकारो (ONGC)-238/18-5059/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो० - डोरण्डा, राँची।

विषय:- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 में मद संख्या-11 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत अंचल-गोमिया के मौजा-खुदगड़ा थाना सं०-111, खाता सं०-106 के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा-0.16 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म-परती कदीम/परती पत्थर भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के आलोक में प्रस्तावित भूमि के वर्तमान बाजार दर के आधार पर की गयी सलामी की राशि 4,72,352/- (चार लाख बहत्तर हजार तीन सौ बावन) रुपये मात्र, सलामी का 1 (एक) प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि 4,724/- (चार हजार सात सौ चौबीस) रुपये, लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि 3,543/- (तीन हजार पाँच सौ तैंतालीस) रुपये मात्र तथा 29 वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतये लगान एवं सेस की राशि 2,39,743/- (दो लाख उनचालीस हजार सात सौ तैंतालीस) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 7,20,362/- (सात लाख बीस हजार तीन सौ बासठ) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) की अदायगी पर ONGC के कुआँ खुदाई आदि के निर्माण हेतु Oil and Natural Gas Corporation Limited के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

- i) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।

- ii) उपायुक्त, बोकारो प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्यवाई करेंगे।
- iii) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि हैं तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय कंपनी से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- iv) प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, बोकारो यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- v) उपायुक्त संतुष्ट हो लेंगे कि प्रस्तावित भूमि विवादरहित तथा वनसीमा/भू-हदबंदी/भू-दान/कब्रिस्तान/श्मशान/धार्मिक स्थल से मुक्त है।
- vi) अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक 03 जनवरी, 2017, विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक-I**ONGC साथ लीज बंदोबस्ती हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी :**

क्र०	अभिलेख सं०	ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा(एकड़)	भूमि का किस्म
01	11/2017-18	खुदगड़ा	111	106	1709	0.04	गैरमजरूआ खास परती पत्थर
					1711	0.06	गैरमजरूआ खास परती पत्थर
					2023	0.06	गैरमजरूआ खास परती कदीम
कुल-						0.16	

अनुलग्नक-II**प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-**

क्र०	अभिलेख सं०	ग्राम	रकबा (एकड़)	प्रति एकड़ मूल्य	सलामी की राशि	लगान (सलामी का 1%)	सेस (लगान का 75%)	लगान एवं सेस 29 वर्षों के लिए	कुल राशि
01	11/2017-18	खुदगड़ा	0.16	29,52,200	4,72,352	4,724	3,543	2,39,743	7,20,362
कुल-									7,20,362

अर्थात् कुल देय राशि 7,20,362/- (सात लाख बीस हजार तीन सौ बासठ) रुपये मात्र।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2018

संख्या/02/नि०स्था०-130/2011-5068/रा०-- श्री शहाब सिद्दीकी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-7600 पुनरीक्षित पे लेवल-12 वेतनमान-78,800/-) वरीयता क्रमांक-07 को उप निबंधन महानिरीक्षक (वेतनमान 37400-6700 ग्रेड पे-8700 पुनरीक्षित पे लेवल-13 वेतनमान-1,23,100/-) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उप निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/नि०स्था०-130/2011-5069/रा०-- श्री अजय कुमार हेम्ब्रम, अ०अ०जा० वरीयता क्रमांक-5 अवर निबंधक, चाईबासा (वेतनमान-39100-34800 ग्रेड पे 5400) को जिला अवर निबंधक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पुनरीक्षित पे लेवल-11 वेतनमान-67,700/-) के पद पर प्रोन्नत करते हुए अवर निबंधक, चाईबासा के पद को उनके पदस्थापन अवधि तक उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/नि०स्था०-130/2011-5070/रा०-- श्री राजेश एक्का, अ०अ०जा० वरीयता क्रमांक-6 अवर निबंधक, पलामू (वेतनमान-39100-34800 ग्रेड पे 5400) को जिला अवर निबंधक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पुनरीक्षित पे लेवल-11 वेतनमान-67,700/-) के पद पर प्रोन्नत करते हुए जिला अवर निबंधक, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/नि०स्था०-130/2011-5071/रा०-- श्रीमती श्वेता कुमारी, वरीयता क्रमांक-9 अवर निबंधक, रामगढ़, (वेतनमान-39100-34800 ग्रेड पे 5400) को जिला अवर निबंधक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पुनरीक्षित पे लेवल-11 वेतनमान-67,700/-) के पद पर प्रोन्नत करते हुए अवर निबंधक, रामगढ़ के पद को उनके पदस्थापन अवधि तक उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/नि०स्था०-130/2011-5072/रा०-- श्री वैभव मणि त्रिपाठी, वरीयता क्रमांक-13 अवर निबंधक, जमशेदपुर (वेतनमान-39100-34800 ग्रेड पे 5400) को जिला अवर निबंधक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पुनरीक्षित पे लेवल-11 वेतनमान-67,700/-) के पद पर प्रोन्नत करते हुए जिला अवर निबंधक, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/नि०स्था०-130/2011-5073/रा०-- श्री प्रफुल्ल कुमार, वरीयता क्रमांक-14 अवर निबंधक, खूँटी, (वेतनमान-39100-34800 ग्रेड पे 5400) को जिला अवर निबंधक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पुनरीक्षित पे लेवल-11 वेतनमान-67,700/-) के पद पर प्रोन्नत करते हुए अवर निबंधक, खूँटी के पद को उनके पदस्थापन अवधि तक उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/नि०स्था०-130/2011-5074/रा०-- श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीयता क्रमांक-15 अवर निबंधक, गिरिडीह (वेतनमान-39100-34800 ग्रेड पे 5400) को जिला अवर निबंधक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पुनरीक्षित पे लेवल-11 वेतनमान-67,700/-) के पद पर प्रोन्नत करते हुए जिला अवर निबंधक, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/नि०स्था०-130/2011-5075/रा०-- श्री रूपेश कुमार सिन्हा, वरीयता क्रमांक-16 अवर निबंधक, गढ़वा, (वेतनमान-39100-34800 ग्रेड पे 5400) को जिला अवर निबंधक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पुनरीक्षित पे लेवल-11 वेतनमान-67,700/-) के पद पर प्रोन्नत करते हुए अवर निबंधक, गढ़वा के पद को उनके पदस्थापन अवधि तक उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/नि०स्था०-130/2011-5076/रा०-- श्री अविनाश कुमार, अवर निबंधक (सम्प्रति सहायक निबंधन महानिरीक्षक) वरीयता क्रमांक-17 (वेतनमान-39100-34800 ग्रेड पे 5400) को जिला अवर निबंधक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पुनरीक्षित पे लेवल-11 वेतनमान-67,700/-) के पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत करते हुए सहायक निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संबंधित पदाधिकारी प्रभार प्रतिवेदन तुरंत सरकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

स्थानान्तरित पदाधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित समझी जाएँगी।

ह०/-

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश
27 दिसम्बर, 2018

संचिका संख्या-4/संभू० सराय० (KVS)-55/17-5115/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक **19 दिसम्बर, 2018** की मद सं०-12 में लिये गये निर्णय के आलोक में सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत सरायकेला अंचल के मौजा-पारलपोसी, थाना सं०-304, खाता सं०-80, खेसरा सं०-287/ए किस्म-पत्थर, कुल रकबा-7.01 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि, केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि प्रस्तावित भूमि का रकबा-7.01 एकड़ है परन्तु सर्वसाधारण सूचना एवं ग्राम सभा की सहमति 5.96 एकड़ भूमि पर ही प्राप्त है। अतः उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ शेष भूमि के संबंध में सर्वसाधारण सूचना निर्गत कर ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही भू-हस्तांतरण की अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।
- ii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
- iii) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iv) अधियाची विभाग को खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों का पालन करना होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

शुद्धि पत्र

27 दिसम्बर, 2018

पत्रांक-02/नि.स्था.-130/2011-5118— विभागीय अधिसूचना संख्या-5068/रा., दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के चतुर्थ पंक्ति में अंकित उप निबंधन महानिरीक्षक का वेतनमान 37400-6700 के स्थान पर 37400-67000 पढ़ा जाय तथा अधिसूचना संख्या-5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के द्वितीय पंक्ति में अंकित अवर निबंधक का वेतनमान 39100-34800 के स्थान पर 9300-34800 पढ़ा एवं समझा जाय।

पूर्व निर्गत अधिसूचना की शेष शरीर यथावत रहेंगी।

ह०/-

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

27 दिसम्बर, 2018

संचिका संख्या-05/स० भू० लातेहार (रेल)-224/18-5116/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 18 में मद संख्या-09 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में लातेहार जिलान्तर्गत अंचल-चन्दवा, मौजा-जमीरा, भुसाड़ एवं कामता, थाना सं०-281, 283 एवं 284 के विभिन्न प्लॉट सं० में अंतर्निहित कुल रकबा-19.76 एकड़ गैरमजरुआ आम एवं खास भूमि किस्म-नदी, धान-II, पुरानी परती काबिल आबाद, पु०प०गै०का०आ०, टांड-II, नाला, वीर कुंवर स्थान, रास्ता एवं टांड-II अवैध दखल (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) जिला निबंधन कार्यालय, लातेहार से प्राप्त निबंधन दर के अनुसार निर्धारित कृषि दर एवं राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 के आधार पर संगणित सलामी की राशि 59,37,165/- (उनसठ लाख सैंतीस हजार एक सौ पैंसठ) रुपये मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का पूँजीकृत मूल्य की राशि 74,21,456/- (चौहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ छप्पन) रुपये मात्र एवं लगान का 145% सेस का पूँजीकृत मूल्य की राशि 1,07,61,112/- (एक करोड़ सात लाख एकसठ हजार एक सौ बारह) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 2,41,19,733/- (दो करोड़ एकतालीस लाख उन्नीस हजार सात सौ तैंतीस) (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) रुपये मात्र, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर टोरी-बीराटोली-महुआमिलान नई बी०जी० रेलवे लाईन निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, लातेहार प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- ii) उपायुक्त, लातेहार यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति

प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

- iii) परियोजना के अंतर्गत पड़नेवाली वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- iv) उपायुक्त, लातेहार प्रस्तावित गैरमजरूआ आम भूमि के हस्तांतरण के पूर्व परियोजना के खर्च पर वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- v) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029 भू-राजस्व-107" के अंतर्गत जमा होगी।
- vi) राजस्व विभागीय संकल्प जापांक-4306/रा०, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-2 (I) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
- vii) अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014, इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।
- viii) राजस्व विभागीय संकल्प जापांक-4306/रा०, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, लातेहार यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतान होगा। इकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- ix) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
अनु०-यथोपरि।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1**भूमि की विवरणी :-**

क्र०	अभिलेख संख्या	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	01/2018-19	चन्दवा	जमीरा	281	222	422 419 420 417	0.37 0.71 1.59 0.02	नदी धान दो पुरानी परती काबिल आबाद पुरानी परती काबिल आबाद
dqy-							2.69	
2.	02/2018-19	चन्दवा	भुसाड़	283	93	358 365 367 407 408 516 518 496 395 503 413 487 406 500 603 595 596 626 757 606 1135 937 886	0.07 0.02 0.29 1.96 1.51 0.08 1.46 0.30 0.75 0.47 0.02 0.10 0.04 0.12 1.31 0.99 0.81 0.32 0.38 0.75 0.45 0.47 0.36	पु०प०गै०का० आबाद पु०प०गै०का० आबाद पु०प०गै०का० आबाद टांड दो अ०द०कबीर खां आदि टांड दो अ०द०कबीर खां आदि टांड दो अ०द० लक्ष्मण साहु नई परती आ०द० महाबीर गंझु आदि नाला पु०प०गै०का० आबाद पु०प०गै०का० आबाद पु०प०गै०का० आबाद पु०प०गै०का० आबाद पु०प०गै०का० आबाद पु०प०गै०का० आबाद टांड दो अ०द० रुगटा गंझु वगैरह टांड दो अ०द० मथुरा गंझु वगैरह टांड दो अ०द० सोहराई गंझु टांड दो अ०द० महाबीर गंझु

						969	0.01	वगैरह
						618	0.10	नदी
						616	1.44	धान दो अन्द० डेढ़वा गंझु
						958	0.27	वगैरह
						759	0.11	धान दो अन्द० रूगटा गंझु
						927	0.01	वगैरह
						887	0.03	पु०प०गै०का० आबाद
								टांड दो अन्द० कबीर खां
								आदि
								टांड दो अन्द० छेदी उरांव
								पु०प०गै०का० आबाद
								पु०प०गै०का० आबाद
								पु०प०गै०का० आबाद
								पु०प०गै०का० आबाद
								पु०प०गै०का० आबाद
								पु०प०गै०का० आबाद
कुल							15.00	
3.	03/2018-19	चन्दवा	भुसाइ	283	94	360	0.16	वीर कुंवर स्थान
						737	0.41	रास्ता
						770	0.06	रास्ता
						893	0.10	रास्ता
कुल							0.73	
4.	04/2018-19	चन्दवा	कामता	284	220	1570	0.85	पुरानी परती
						1294	0.30	नाला
						1536	0.19	नाला
कुल							1.34	
सकल योग-							19.76	

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि का मूल्य गणना विवरणी :-

अभिलेख सं.	रकबा (एकड़ में)	भूमि का दर प्रति एकड़	सलामी (रूपये में)	सलामी का 5% लगान का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य (रूपये में)	लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य (रूपये में)	कुल देय राशि (4+5+6) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
01/2018-19	2.69	235700	634033.00	792541.25	1149184.81	2575759.06
02/2018-19	15.00	253600	3804000.00	4755000.00	6894750.00	15453750.00
03/2018-19	0.73	253600	185128.00	231410.00	335544.50	752082.50
03/2018-19	1.34	986000	1314004.00	1642505.00	2381632.25	5338141.25
	19.76		5937165.00 या 5937165	7421456.25 या 7421456	10761111.56 या 10761112	24119732.81 या 24119733

अर्थात दो करोड़ एकतालीस लाख उनचास हजार एक सौ उन्तीस रूपये मात्र।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखंड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

24 दिसम्बर 2018

संख्या-कार्मिक-01/15- 3954 /वि०स० -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखंड विधान सभा के उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-71 (कोलेबिरा) (अ०ज०जा०) से निर्वाचित सदस्य श्री नमन बिकसल कोनगाड़ी ने अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के समक्ष अध्यक्षीय कार्यालय में दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को विधान सभा के सदस्य के रूप में हिन्दी भाषा में प्रतिज्ञान किया ।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

09 जनवरी, 2019 ई०।

संख्या-18/विविध (07) 04/2017-147-- राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में Mobile Tower Project के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित स्थानों पर मोबाईल टावर अधिष्ठापित करने हेतु केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। मोबाईल टावर अधिष्ठापन हेतु भूमि, सुरक्षा एवं अन्य वांछित सुविधाओं को जिला द्वारा मुहैया कराये जाने हेतु जिला स्तर पर उचित Machanism/Frame Work उपलब्ध कराने के निमित्त जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

01. उपायुक्त	अध्यक्ष
02. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
03. समादेष्टा, (के०रि०पु०ब०)	सदस्य
04. वन प्रमंडल पदाधिकारी	सदस्य
05. जिला स्तर के दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बाल किशुन मुण्डा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

09 जनवरी, 2019 ई०।

संख्या-18/विविध (07) 04/2017-148-- राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में Mobile Tower Project के अन्तर्गत Mobile Towers के अधिष्ठापन हेतु प्रभावशाली समन्वय एवं संबंधित विषय के समाधान हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

- | | |
|---|--------------|
| 01. मुख्य सचिव, झारखण्ड | अध्यक्ष |
| 02. प्रधान सचिव,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड | सदस्य |
| 03. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड | सदस्य |
| 04. महानिदेशक (के०रि०पु०बल), झारखण्ड | सदस्य |
| 05. DDG, LSA, DoT | सदस्य संयोजक |
| 06. CCA, DoT | सदस्य |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बाल किशुन मुण्डा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

09 जनवरी, 2019 ई०।

संख्या-13/पी०1-209/2003 (खंड)- 159/ सी०,-- श्री राजीव रंजन सिंह, भा०पु०से० (2006), पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी०1-209/2003 (खंड)- 160/ सी०,-- श्री सुनील भास्कर, भा०पु०से० (2007), पुलिस अधीक्षक, आई०टी०एस०, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी०1-209/2003 (खंड)- 161/सी०,-- श्री शैलेन्द्र प्रसाद वर्णवाल, भा०पु०से० (2010), पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

10 जनवरी, 2019 ई०।

संख्या-12/एम०2-140/2012-219-- विभागीय अधिसूचना संख्या-5732, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018, जिसके द्वारा श्री अरूण कुमार सिंह, उप समादेष्टा, अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), बोकारो के पद पर पदस्थापित किया गया था, को स्थगित किया जाता है। श्री सिंह अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), पलामू के पद पर बने रहेंगे।

संख्या-12/एम०2-140/2012-220-- विभागीय अधिसूचना संख्या-5734, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 को स्थगित करते हुए श्री उमेश कुमार साह, उप समादेष्टा, सी०आर०पी०एफ० का झारखण्ड राज्य में योगदान की तिथि से 04 (चार) वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति स्वीकृत करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।